



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 कार्तिक 1936 (श0)  
(सं0 पटना 893) पटना, बृहस्पतिवार, 6 नवम्बर 2014

---

पत्रांक कारा/स्था0(चि0) 01-30/2013—5535  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग

---

प्रेषक,

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,  
अपर सचिव—सह—निदेशक (प्रशासन)  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

द्वारा—वित्त विभाग।

पटना, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

**विषय:—** बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के देय पारिश्रमिक में संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-2362 दिनांक 30.05.2011 के द्वारा राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित विशेषज्ञ चिकित्सक तथा सामान्य चिकित्सक के लिए क्रमशः 35,000/— (पैंतीस हजार) एवं 30,000/— (तीस हजार) रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय स्वीकृत किया गया है।

2. उक्त संकल्प द्वारा यह भी प्रावधानित है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा अनुबंध नियोजित चिकित्सकों के पारिश्रमिक में समय-समय पर की जानेवाली वृद्धि कारा में नियोजित चिकित्सकों को भी अनुमान्य होगी।

3. स्वास्थ्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक-593 (2) दिनांक 27.05.2014 द्वारा सामान्य चिकित्सक तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए 01 जून 2014 के प्रभाव से क्रमशः 41,000 (इकतालीस हजार) रुपये प्रतिमाह तथा 44,000 (चौवालीस हजार) रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

4. तदनुसार उक्त आलोक में बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को देय मानदेय में संशोधन करते हुए दिनांक 01.06.2014 के प्रभाव से क्रमशः 41,000 (इकतालीस हजार) रुपये तथा 44,000 (चौवालीस हजार) रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है।

5. उपरोक्त का लाभ विशेषज्ञ चिकित्सकों के मामले में स्वीकृत पद के विरुद्ध नियोजित एवं कार्यरत को ही अनुमत होगा।

आदेश से,  
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,  
अपर सचिव—सह—निदेशक, प्रशासन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 893-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>